



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]
No. 48]

नई दिल्ली, सोमवार फरवरी 14, 1983/माघ 25, 1904
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1983/MAGHA 25 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1983

सं. 23/82-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 80(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधि-
नियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-
शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनु-
सूची के अध्याय 29 के अधीन आने वाले एथिलीन डाइक्लोराइड
जब उसका पोलिविनाइल क्लोराइड रजिन्स के निर्माण के
लिए भारत में आयात किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय
सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में निर्दिष्ट
किया गया है और उक्त बर्णित दूसरे अधिनियम की धारा 3
के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट
देती है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1983 तक जिसमें यह
दिन भी सम्मिलित है प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 355/162/82-सी.शु. 1]

1332 GI/81

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th February, 1983

NO. 23/83-CUSTOMS

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-
section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of
1962), the Central Government, being satisfied that it is
necessary in the public interest so to do, hereby exempts
Ethylene Dichloride, falling within Chapter 29 of the First
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when
imported into India for the manufacture of Polyvinyl
Chloride Resins, from the whole of the duty of customs
leviable thereon which is specified in the said First Sched-
ule and whole of the additional duty leviable thereon
under Section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive
of the 31st day of December, 1983.

[F No. 355/162/82-Cus. 1]

सं. 24/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 81(अ) :—केंद्रीय सरकार वित्त अधि-
नियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उप-धारा (4)
के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

(1)

करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 136-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 224 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“225 सं. 23/83-सीमा-शुल्क, तारीख 14 फरवरी, 1983” ।

[फा. सं. 355/162/82-सी. शु. 1]

एन. एसिधरन, अवर सचिव

NO. 24/83-CUSTOMS

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136-Customs, dated the 11th May, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 224 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

“225. No. 23/83-Customs dated the 14th February, 1983.”

[F No. 355/162/82-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.